

विकास भारती पब्लिक स्कूल
अभ्यास प्रश्नपत्र (2025-26)
कक्षा : आठवीं
विषय : हिंदी

समयावधि – 2 घंटे 30 मिनट

पूर्णांक – 60

नोट–1. सुंदर व स्पष्ट लेख लिखिए।

2. इस प्रश्नपत्र में कुल 5 खंड, 4 पृष्ठ तथा 13 प्रश्न हैं।
3. सही प्रश्न संख्या लिखकर उत्तर दीजिए।
4. अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखने पर अंक नहीं दिए जाएँगे।
5. वैकल्पिक प्रश्नों में विकल्प संख्या सहित उत्तर भी लिखें अन्यथा अंक नहीं दिए जाएँगे।

खंड – (क) पठन–कौशल			
प्रश्न 1	निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए।		
	<p>मानव जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य के लिए वरदान है। स्वस्थ मनुष्य ही जीवन में आनंद प्राप्त कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति जीवन के सभी सुखों से वंचित रहता है। वह अपना कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकता। उसमें स्वावलंबन की भावना तो रहती ही नहीं। उसे हर कदम पर दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। मनुष्य के मन, बुद्धि और आत्मा का स्वस्थ होना उसके शरीर पर निर्भर करता है। शरीर को स्वस्थ, सुंदर व निरोगी रखने के लिए पौष्टिक आहार, विहार तथा उचित व्यायाम की आवश्यकता है। व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे अच्छा व निःशुल्क साधन है। व्यायाम के अनेक प्रकार हैं; जैसे-प्रातःकाल की सैर पर जाना, दौड़ना, खेलना, दंड-बैठक लगाना, योगासन करना आदि। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु, रुचि व सुविधा के अनुसार उचित व्यायाम चुन सकता है। जो व्यायाम शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं, उन्हें शारीरिक व्यायाम कहते हैं। चिंतन-मनन व ध्यान के द्वारा मानसिक शक्ति का विकास होता है। व्यायाम की आवश्यकता स्त्री व पुरुष दोनों को ही होती है। रस्सी कूदना, झाड़ू पोंछा लगाना, घर के अन्य कार्य स्वयं करके स्त्रियाँ नियमित व्यायाम कर सकती हैं। प्रातः व सायकाल तीन-चार किलोमीटर घूमना स्त्री-पुरुष व अन्य आयु वर्ग के लिए सस्ता व सबसे अच्छा व्यायाम है।</p>		
	क)	गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए– 1) स्त्री व पुरुष 2) स्वास्थ्य और व्यायाम 3) शारीरिक व्यायाम	1
	ख)	अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। इस वाक्य में निपात शब्द बताइए। 1) का 2) में 3) ही	1
	ग)	कथन व कारण पढ़कर उचित विकल्प चुनिए– कथन (अ) – केवल पुरुषों को ही व्यायाम की आवश्यकता होती है। कारण (ब) – स्त्रियाँ घरेलू कार्यों द्वारा भी नियमित व्यायाम कर सकती हैं। 1) कथन (अ) और कारण (ब) दोनों सही हैं तथा कारण (ब), कथन (अ) की सही व्याख्या करता है। 2) कथन (अ) और कारण (ब) दोनों सही हैं पर कारण (ब), कथन (अ) की सही व्याख्या नहीं करता। 3) कथन (अ) सही है पर कारण (ब) गलत है।	1

		4) कथन (अ) गलत है पर कारण (ब) सही है।	
	घ)	अस्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार की समस्याओं का सामना करता है? विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।	2
खंड – (ख) व्याकरण			
प्रश्न 2	निर्देशानुसार उत्तर दीजिए।		
	क)	'सज्जन' का उचित विलोम शब्द चुनिए। 1) दुर्जन 2) दूर्जन 3) दुर्जन	1
	ख)	जो थोड़ा बोलता हो, वह कहलाता है। 1) निष्पक्ष 2) अल्पभाषी 3) कवयित्री	1
	ग)	'रात्रि' शब्द का अनुचित पर्यायवाची चुनिए। 1) तपस्विनी 2) रैन 3) शर्वरी	1
	घ)	उचित शब्द चुनकर लिखिए – हमें की धर्म व जाति को नहीं बल्कि उनके को अपनाना चाहिए। (गुरु / गुरु / गुर)	1
	ङ)	'चक' शब्द का उचित अनेकार्थक शब्द चुनिए। 1) चकवा 2) धातु 3) धन	1
प्रश्न 3	निर्देशानुसार उत्तर दीजिए।		
	क)	जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, वे वाक्य किस नाम से जाने जाते हैं?	1
	ख)	लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग कीजिए – हाथ कंगन को आरसी क्या	1
	ग)	उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तुम चुप हो जाओ पिट जाओगे। (समुच्चयबोधक) हमें दूसरों का आदर करना चाहिए। (क्रियाविशेषण)	½x2=1
	घ)	मुहावरे का अर्थ लिखिए – अपना राग अलापना	1
	ङ)	वाक्य शुद्ध करके पुनः लिखिए – घर पर सब कुशलपूर्वक हैं?	1
	च)	दिए गए वाक्य में वाच्य का भेद पहचानकर लिखिए – नौकरानी से सफाई नहीं की गई।	1
	छ)	दिए गए वाक्य को सरल वाक्य में बदलकर लिखिए। – जो विद्यार्थी मेहनत करता है, वही सफलता प्राप्त करता है।	1
	ज)	रेखांकित पद के दो पद परिचय लिखिए – <u>मैं</u> प्रातःकाल सैर पर जाता हूँ।	1
	झ)	दिए गए वाक्य में यमक अलंकार है या श्लेष? कारण बताइए। वह बहुत फल खाता है और जीवन में फल पाना चाहता है।	½x2=1
	ञ)	दिए गए वाक्य में रेखांकित पद संरचना के आधार किया का कौन–सा भेद है? जोकर का तमाशा <u>देखकर</u> सभी घर चले गए।	1
	खंड – (ग) पूरक पुस्तक		
प्रश्न 4	निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए।		
	क)	"किसी मोहल्ले में मदारी का आ जाना बालवृद्ध के लिए एक महत्त्व की बात है।" यह वाक्य किस पाठ में से लिया गया है? 1) सज्जनता का दंड से 2) अनिष्ट शंका से 3) आत्माराम से	
	ख)	महादेव का व्यवसाय क्या था? 1) लुहार 2) जुलाहा 3) सुनार	

	ग)	सरदार साहब की पत्नी से मिलने कौन आया था? 1) रामा की पत्नी 2) रामदीन की पत्नी 3) हरिदास की पत्नी	
	घ)	सभी लोग सरदार साहब के तबादले की प्रार्थना क्यों कर रहे थे?	
	छ)	महादेव ने कलसा कहाँ छिपाया?	
खंड – (घ) वसंत			
प्रश्न 5	क)	वाक्य बनाइए – 1) गढ़न 2) एकाएक	1x2=2
प्रश्न 6	ख)	अर्थ लिखिए – 1) शिखर 2) भुइँ 3) डामलफाँसी	1x3=3
प्रश्न 7	क) ख)	किसने कहा, किससे कहा? “सप्ताह से आपका तात्पर्य सात दिन से है या सात वर्ष से?” “आकाश! आकाश को लेकर क्या मैं चाटूँगा!”	4
प्रश्न 8		निम्नलिखित में से <u>किन्हीं</u> तीन प्रश्नों के उत्तर <u>एक–दो वाक्यों</u> में लिखिए।	1x3=3
	क)	पाठ ‘अकबरी लोटा’ में लाला झाऊलाल छत पर क्यों टहल रहे थे?	
	ख)	श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या शिकायत कर रहे थे?	
	ग)	बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया?	
	घ)	लाला झाऊलाल का मकान कितने मंज़िला था?	
प्रश्न 9		निम्नलिखित प्रश्नों में से <u>किन्हीं</u> तीन प्रश्नों के उत्तर <u>विस्तार से</u> लिखिए। (30 से 40 शब्दों में)	2x3=6
	क)	पाठ ‘अकबरी लोटा’ में अंग्रेज़ ठठेरी बाजार में क्या कर रहे था और वहाँ उसके साथ कौन–सी घटना घटी?	
	ख)	पाठ ‘सूरदास के पद’ में से आपको कौन–सा पद अधिक अच्छा लगा? कारण सहित स्पष्ट कीजिए।	
	ग)	साँप कहाँ रहता था? उस स्थान का वर्णन कीजिए।	
	घ)	बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज़ को लोटा कैसे बेचा? विस्तारपूर्वक लिखिए।	
प्रश्न 10		साँप के स्वभाव का वर्णन कीजिए और बताएँ कि उसकी स्थिति हमें किस प्रकार की सोच या मानसिकता का संदेश देती है? स्पष्ट कीजिए।	2
खंड – (छ) रचना–कौशल			
प्रश्न 11	क)	निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लिखिए। विद्यालय पत्रिका हेतु रचनाएँ आमंत्रित करते हुए पत्रिका के छात्र–संपादक की ओर से विद्यार्थियों के लिए एक सूचना तैयार कीजिए।	5
	ख)	अपने भाई का दाखिला मुंबई के नामी कॉलेज में होने पर उसे बधाई देते हुए एक संदेश लिखिए।	
प्रश्न 12	क)	निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लिखिए। अपने विद्यालय की प्रधानाचार्या जी से विद्यालय में नए कंप्यूटर लगावाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए।	5
	ख)	अपने क्षेत्र के बगीचे की खराब हालत की शिकायत करते हुए नगर निगम के मुख्य अधिकारी को पत्र लिखिए।	

प्रश्न 13	निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लिखिए।	
क)	काल करे सो आज कर (120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद)	5
ख)	दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। (120 से 150 शब्दों में)	

